



भा0कृ0अनु0प0-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान  
ICAR-Central Institute For Subtropical Horticulture  
रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ-226 101 (भारत)  
Rehmankhhera, P.O. Kakori, Lucknow 226 101 (India).  
Phone (O)2841022,2841023, 2841024; Fax 0522-2841025  
Web Site www.cish.res.in; E-cish.lucknow@gmail.com



फा०सं० 1-1(102)/स्था०

दिनांक:18.10.2018

प्रवेश-साक्षात्कार (वाक इन इंटरव्यू)

निम्नलिखित अस्थाई पदों पर भर्ती हेतु संस्थान के रायबरेली रोड, कैम्पस तेलीबाग, लखनऊ में क्रम सं० 01 दिनांक 03.11.2018 एवं क्रम सं० 2 से 6 दिनांक 02.11.2018 को अधोलिखित विवरण के अनुसार प्रवेश साक्षात्कार होना निर्धारित हुआ है।

Sl. No.	Name of the Project	Name & No. of the position	Emoluments	Qualification & Experience
1.	पी0पी0वी0 एंड एफ0आर0ए0 प्रोजेक्ट – “वैलीडेशन और डस डिस्क्रिप्टर फार बेल” PPV & FRA project entitled “Validation of DUS descriptor for Bael” (परियोजना काल : 31 मार्च 2019) (Project Duration: Up to March 2019) Date of Interview : 03.11.2018 Time : 10.30 a.m.	SRF (One) (UR)	Rs. 25000 per month +20%HRA	<b>Essential:</b> Master's Degree in the relevant subject with 4 years / 5 years of Bachelor's degree. <b>Or</b> Post graduate degree in Basic Science with 3 years Bachelor's degree and 2 years Master's degree should have NET /P.hd. qualification in <b>Sub:</b> Horticulture/ Biochemistry/Plant Breeding/Plant physiology /Life Science <b>Desirable:</b> Knowledge of biochemical analysis of fruits and working knowledge of computer application
2.	नेटिवो : एफिफेसी इवैल्यूएशन..... पैक्टिसेज ऑफ सी.आई.एस.एच, लखनऊ. Nativo: Efficacy evaluation ..... practices of CISH, Lucknow (परियोजना काल : 31 मार्च 2019 या परियोजना समाप्त होने तक। Project Duration: Up to 31 March 2019 or termination of project) Date of Interview : 02.11.2018 Time : 10.30 a.m.	परियोजना सहायक (एक) Project Assistant (One) (SC)	Rs. 10000/- fixed	<b>अनिवार्य:</b> कृषि/ विज्ञान में स्नातक वांछनीय: आम के बागों में कार्य का अनुभव <b>Essential:</b> Agriculture/ Science Graduate. <b>Desirable :</b> Working experience in mango fields

3.	<p>निका प्रोजेक्ट "अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन होस्ट-पेस्ट इंटरैक्शन्स --- अंडर क्लाइमेट चेंज सिनेरियो"</p> <p>NICRA Project " Understanding the changes in host-pest ..... in mango under climate change scenario". (परियोजना काल : 31 मार्च 2020 या परियोजना समाप्त होने तक। Project Duration: Up to 31 March, 2020 or termination of project) <b>Date of Interview : 02.11.2018</b> <b>Time : 10.30 a.m.</b></p>	स्काउट (एक) Scout (One) (UR)	Rs. 12000/- fixed	<p>अनिवार्य: कृषि/ विज्ञान में स्नातक</p> <p>वांछनीय: आम के बागों में कार्य का अनुभव</p> <p><b>Essential:</b> Agriculture/ Science Graduate.</p> <p><b>Desirable :</b> Working experience in mango fields</p>
4.	<p>हाई टेक हार्टीकल्चर फार एफीशिएन्ट यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्सज थू प्रिसीजन फार्मिंग अन्डर पीएफडीसी</p> <p>PFDC- Project Hi-tech Horticulture for Efficient Utilisation of Resouures through Precision Farming under PFDC. (परियोजना काल : 31 मार्च 2019) <b>Project Duration: Up to March 2019)</b>  <b>Date of Interview : 02.11.2018</b> <b>Time : 10.30 a.m.</b></p>	SRF (One) (UR)	Rs. 25000/-per month(fixed) + 20% HRA	<p><b>Essential:</b> Master's Degree in the relevant subject with 4 years / 5 years of Bachelor's degree.</p> <p><b>or</b> Post graduate degree in Basic Science with 3 years Bachelor's degree and 2 years Master's degree should have NET/Ph.D. qualification</p> <p><b>Sub:</b> Horticulture/Plant Physiology</p> <p><b>Desirable:</b> i. Research experience in relevant research field. ii. Working knowledge of computer.</p>
5.	<p>डी.बी.टी. प्रोजेक्ट "डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डाटाबेस ऑन मँगो"</p> <p>DBT Project "Development of National Database on Mango" (परियोजना काल : 28 फरवरी 2019 या परियोजना समाप्त होने तक Project Duration: Up to 28 February 2019 or termination of project) <b>Date of Interview : 02.11.2018</b> <b>Time : 10.30 a.m..</b></p>	SRF (One) (OBC)	Rs. 25000 per month +20% HRA	<p>Master's Degree in the relevant subject with 4 years / 5 years of Bachelor's degree.</p> <p><b>Or</b> Post graduate degree with 3 years Bachelor's degree and 2 years Master's degree should have NET /Ph.D.</p> <p><b>Sub:</b> Science/ Eng./ Geography</p> <p><b>Desirable -</b> Strong working knowledge in GIS technologies for generating map, area estimation, change detection</p>
6.	<p>पीपीवीए एंड एफआरए प्रोजेक्ट -"डस कैरेक्टराईजेशन ऑफ ग्वावा"</p> <p>PPV&amp;FRA project entitled "DUS characterization of Guava". (परियोजना काल : 31 मार्च 2019 या परियोजना समाप्त होने तक Project Duration: Up to 31 March 2019 or termination of project) <b>Date of Interview : 02.11.2018</b> <b>Time : 10.30 a.m..</b></p>	SRF (One) (UR)	Rs. 25000 per month +20% HRA	<p><b>Essential:</b> Master's Degree in the relevant subject with 4 years / 5 years of Bachelor's degree.</p> <p><b>Or</b> Post graduate degree in Basic Science with 3 years Bachelor's degree and 2 years Master's degree should have NET /Ph.D. qualification</p> <p><b>Sub:</b> Horticulture/Plant Breeding/Botany/Plant Sciences</p> <p><b>Desirable-</b> Working experience in field, DUS characterization knowledge of computer and documentation</p>



**Age Limit :**

For Senior Research Fellow,: Maximum age of 35 years for male and 40 years for female candidates.

For Scout & Project Assistant : Maximum age of 35 years for male and 40 years for female candidates.

Note : Age will be calculated as on the date of interview. Relaxation of age admissible for SC/ST/ OBC candidates as per Govt. of India/ICAR rules.

1. Candidates should bring his/her bio-data (C.V.) and original certificates supporting educational qualifications and experience. Photocopies of certificates, a latest passport size photograph at the time of interview.
2. The above-mentioned position are purely on contract basis and co-terminus with the project. The person recruited will not have any claims for absorption in any capacity after the termination of the project
3. No T.A./D.A. will be paid to candidates for attending the interview.
4. Canvassing in any form will disqualify the candidature.
5. The Director's/P.I. decision will be final and binding in all respects.

*Note: The Advertisement is also available at the Institute Website: [www.cish.res.in](http://www.cish.res.in)*

*Asst. Admn. Officer*